

CHAMBAL Breweries & Distilleries Limited



REGISTERED OFFICE
H. NO. 30, 2ND FLOOR, DAV SCHOOL KEI PASS
TALWANDI, KOTA (RAJ.) 324005
PHONE : 0744-3500607

Date: 20-11-2025

**To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001**

Scrip Code: 512301

**Subject: Newspaper Publication- Notice of Extra Ordinary General Meeting to be held on
December 12, 2025**

Please find attached herewith extracts of newspaper publications in editions of Financial Express (English) and Business-Remedies (Hindi) newspapers on November 20, 2025, w.r.t Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Company to be held on Friday, December 12 2025 at 09:00 AM at the Fern Jaipur Airport Plaza, Plot No. 3, Tonk Rd, Chandrakala Colony, Durgapura, Jaipur-302018, Rajasthan, India.

Kindly take the above information on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Chambal Breweries and Distilleries Limited

Nitish Neniwal
Company Secretary and Compliance Officer

CHAMBAL BREWERIES AND DISTILLERIES LIMITED

CIN: L99999RJ1985PLC046460

Registered Office: House No. 30 2nd Floor, DAV School Kei Pass, Talwandi, Kota- 324005, Rajasthan, India
Tel.: 0744-3500607 | **E-mail:** chambalbreweries@gmail.com | **Website:** www.chambalkota.in

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Members of Chambal Breweries and Distilleries Limited will be held on Friday, December 12, 2025, at 09:00 AM at The Fern Jaipur Airport Plaza, Plot No. 3, Tonk Rd, Chandrakala Colony, Durgapura, Jaipur-302018, Rajasthan, India, to transact the businesses mentioned in the Notice convening the EGM.

In compliance with the General Circulars, the Notice of the EGM is sent in electronic mode only to those members whose email address is registered with the Company/Depository Participant(s)/Registrar and Transfer agents. The Company has also sent the Notice by courier to those shareholders whose email addresses are not registered with the Company. The aforesaid Notice is also available on the Company's website at www.chambalkota.in under the section "Miscellaneous", on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Adroit Corporate Services Private Limited, at www.adroitcorporate.com and at the website of CSDL at www.evotingindia.com.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the company is pleased to provide the facility of voting through electronic means (remote e-voting) to its members.

All members are hereby informed that:

- The business set forth in the notice may be transacted through remote e-voting or e-voting made available during the EGM.
- The remote e-voting period begins on December 09, 2025 (09:00 AM IST) and ends on December 11, 2025 (05:00 PM IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for evoting thereafter.
- The record date (cut-off date) for determining the eligibility to vote shall be December 05, 2025.
- Members who have cast their vote by remote e-voting shall not be allowed to cast their votes again during the EGM.

The results declared along with the Scrutinizers Report within the prescribed period shall be displayed on the company's website and also communicated to the stock exchange.

In case of any queries, Members may contact Nitish Neniwal, Company Secretary and Compliance Officer; Email ID: chambalbreweries@gmail.com, Tel: 0744-3500607.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the notice of the EGM and, in particular, instructions for attending the EGM, the manner of casting a vote through remote e-voting or during the EGM. In case shareholders/investors have any queries regarding E-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') available at the Help section of www.evotingindia.com, or you can email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at: 022-62343333.

For Chambal Breweries and Distilleries Limited

Sd/-

Nitish Neniwal

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kota

Date: 20/11/2025

LOTUS CHOCOLATE COMPANY LIMITED

Regd. Office: 8-2-596, 1st Floor, 1B, Sumedha Estates, Avenue - 4, Puzolana Towers, Street No. 1, Road. No. 10, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500 034. Tel: 91 40 4020 2124;

Email: investors@lotuschocolate.com; **Website:** www.lotuschocolate.com;

CIN: L15200TG1988PLC009111

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/DOS/3/CIR/P/2018/139 dated 6th November 2018, request(s) have been received by the Company from the Transferee(s) / Claimant(s) to transfer the below mentioned securities held in the name(s) of the security holder(s), as detailed below, to his name.

Sr. No.	Name and address of Transferee(s) / Claimant(s)	Folio No.	Name and address of the registered shareholder(s)	Equity Share and Face Value	Certificate Nos.	No. of Shares	Distinctive Nos.	
							From	To
1	RAJENDRA PRASAD MAHIPAL C-1/1183 VASANT KUNJ SOUTH WEST DELHI DELHI - 110070	LCC036990	SHELL PACKAGING PRIVATE LIMITED B - 29; SHANTHI SIKHARA RAJ BHAVAN ROAD SOMAJIGUDA HYDERABAD - 500482	10	44550	100	9988986	9989085
2	RAJENDRA PRASAD MAHIPAL C-1/1183 VASANT KUNJ SOUTH WEST DELHI DELHI - 110070	LCC036990	SHELL PACKAGING PRIVATE LIMITED B - 29; SHANTHI SIKHARA RAJ BHAVAN ROAD SOMAJIGUDA HYDERABAD - 500482	10	44551	100	9989086	9989185
3	RAJENDRA PRASAD MAHIPAL C-1/1183 VASANT KUNJ SOUTH WEST DELHI DELHI - 110070	LCC036990	SHELL PACKAGING PRIVATE LIMITED B - 29; SHANTHI SIKHARA RAJ BHAVAN ROAD SOMAJIGUDA HYDERABAD - 500482	10	44553	100	9989286	9989385

These securities were claimed to have been purchased by the Transferee(s) / Claimant(s).

Any person(s) who has / have any objection in this regard, should lodge such objection with the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz., "KFin Technologies Limited" Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 033, within 30 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company will proceed to transfer the aforesaid shares.

For Lotus Chocolate Company Limited

Sd/-

Utsav Saini

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad

Date: November 19, 2025

PPFAS Mutual Fund

PPFAS Asset Management Private Limited
 (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Registered Office: - 81/82, 8th Floor, Sakhar Bhavan, Ramnath Goenka Marg, 230 Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra, INDIA. Tel.: 91 22 6140 6555 Fax: 91 22 6140 6590.
E-mail: mf@ppfas.com. **Website:** www.amc.ppfas.com **CIN No.:** U65100MH2011PTC220623

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI) OF PPFAS MUTUAL FUND (THE FUND)

Appointment of Mr. Vikas Gandhi as the Chief Financial Officer & Whole Time Director of PPFAS Asset Management Private Limited

Investors are requested to note that the Board of Directors of PPFAS Asset Management Private Limited ('PPFAS AMC') and PPFAS Trustee Company Private Limited ('Trustee to PPFAS Mutual Fund') have approved the appointment of Mr. Vikas Gandhi as the Chief Financial Officer & Whole Time Director of PPFAS AMC w.e.f. **November 13, 2025.**

Therefore, requisite sections namely 'Details of the Directors of Asset Management Company' and 'Information on Key employees of the Asset Management Company' in the SAI will be updated with the following details:

Name of the Director/ Key Employee and Designation	Age (years)	Qualification	Total No. of years of Experience	Brief Experience
Mr. Vikas Gandhi Chief Financial Officer & Whole Time Director	49 Years	Chartered Accountant Bachelor of Commerce	23 Years	Vikas Gandhi is a Chartered Accountant with over 23 years of experience in Banking, Mutual Funds, Insurance, and Financial Services. He has held leadership roles at Mirae Asset Mutual Fund, L&T Mutual Fund, Nippon India Mutual Fund, and ICICI Bank. His expertise includes financial planning, compliance, and strategic decision-making. Vikas is an alumnus of the Chief Financial Officer Programme at IIM Calcutta.

This notice cum addendum forms an integral part of the SAI. All other features, terms and conditions mentioned in the SAI remain unchanged.

For PPFAS Asset Management Private Limited
 (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Sd/-

Director

Place: Mumbai

Date: November 19, 2025

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

PPFAS
MUTUAL FUND
 There's only one right way®

KALIND LIMITED

(Formerly Known as Arunis Abode Limited)

CIN: L77309GJ1994PLC021759

Registered and Corporate Office: Fourth Floor, Office No 404, White Pearls, Near Galaxy Circle, Pal Gam, Adajan DN Surat - 395009, Gujarat, India
 Mobile No.: +91-93275 86318; Email: cs@kalindlimited.com; Website: www.kalindlimited.com

Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30.09.2025

(Rs. in Lakh except EPS)

Sr no	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter ended			Half year ended			Quarter ended			Half year ended		
		30.09.2025 Unaudited	30.06.2025 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	30.09.2025 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	31.03.2025 Audited	30.09.2025 Unaudited	30.06.2025 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	30.09.2025 Unaudited	30.09.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
1	Total income from operations (net)	1683.14	1407.81	10.75	3090.95	10.75	48.48	1820.80	1415.16	10.75	3235.96	21.75	51.61
2	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	988.11	618.39	-10.59	1606.50	-10.59	-49.22	1119.91	625.66	-10.90	1745.57	-22.40	-47.79
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	988.11	618.39	-10.59	1606.50	-10.59	-49.22	1119.91	625.66	-10.90	1745.57	-22.40	-47.79
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	825.39	525.11	-8.08	1350.50	-8.08	-16.55	923.22	532.38	-8.39	1455.60	-17.38	-15.23
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	825.39	525.11	-8.08	1350.50	-8.08	-16.55	923.22	532.38	-8.39	1455.60	-17.38	-15.23
6	Equity Share Capital	5100	300	300	5100	300	300	5100	300	300	5100	300	300
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) -												
1. Basic:		1.62	17.50	-0.27	2.65	-0.27	-0.55	3.08	17.75	-0.28	2.85	-0.58	-0.51
2. Diluted:		1.62	17.50	-0.27	2.65	-0.27	-0.55	3.08	17.75	-0.28	2.85	-0.58	-0.51

Notes:

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 14.11.2025. The Statutory Auditors have carried out a 'Limited Review' of the same.
- These Financial Results have been prepared in compliance with Ind AS as notified by the Ministry of Corporate Affairs and prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 read with relevant rules issued thereunder.
- During the quarter ended 30.09.2025, the Holding Company invested in its subsidiary i.e. Prasad Earth Movers Private Limited.
- Previous periods figures are re-arranged / re-grouped wherever considered necessary to conform to the presentation of current period.
- During the quarter/half year, the company had issued 4,80,00,000 Equity Shares with the face value of Rs. 10/- and premium of Rs. 2.60/- per share.
- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year 30.09.2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015. The full format of the said Unaudited financial results is available on the Company's website i.e. www.kalindlimited.com and on the website of the Stock Exchange where Company's shares are listed i.e. BSE Limited - www.bseindia.com, and it can also be accessed by scanning the Quick Response (QR) Code provided below.



On the behalf of Board of Directors
 For Kalind Limited
 (Formerly Known as Arunis Abode Limited)
 Ayush Dharmendrabhai Jasani
 Vice Chairman & Managing Director
 DIN: 09842741

Place: Surat
 Date: 19.11.2025

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR BHALKESHWAR SUGARS LIMITED (UNDER CIRP), Sugar Industry in Village Bajajga Tq. Bhalki, District Bidar (Karnataka) (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of the Corporate Debtor along with PAN/ CIN/ LLP No.	BHALKESHWAR SUGARS LIMITED CIN: U15423KA2000PLC027184
2. Address of the Registered Office	Bajajga Tq. Bhalki, Dist.: Bidar, Karnataka-585328
3. URL of website	N/A
4. Details of the place where the majority of fixed assets are located	Factory Site: Bajajga Tq. Bhalki, Dist.: Bidar, Karnataka-585328
5. Installed capacity of main products/ services	Installed Capacity of Main Products/Services: Sugarcane Crushing: 4,000 TCD. Distillery: 120 KLPD. Co-Generation Plant: 40 MW
6. Quantity and value of main products/ services sold in the last financial year	Quantity and Value of Main Products/ Services Sold in the Last Financial Year: Sugar: 2.61 lakh quintals - Rs. 87.80 crore. Distillery Products: 128.54 lakh liters - Rs. 81.46 crore. Co-Generation (Power): 26.13 lakh kWh - Rs. 1.87 crore
7. Number of employees/workmen	At the time of taking possession of the Corporate Debtor, it was informed to the IRP that the Corporate Debtor had entered into a Lease Rental Agreement with a third party (the Lessee). Accordingly, only six employees of the Corporate Debtor are presently working , and no workmen are employed under the Corporate Debtor. The other personnel working at the premises are employees of the Lessee.
8. Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	Details can be sought by emailing: bslcirp@gmail.com
9. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The detailed invitation for Expression of Interest (Eoi) mentioning Eligibility Criteria can be sought by an email to: bslcirp@gmail.com
10. Last date of receipt of expression of interest	Friday, 5th December 2025 (15 days)
11. Date of issue of the provisional list of prospective resolution applicants	Monday, 15th December 2025 (within 10 Days)
12. Last date of submission of objections to the provisional list	Saturday, 20th December 2025 (5 Days)
13. Date of issue of the final list of prospective resolution applicants	Tuesday, 30th December 2025 (within 10 Days)
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix, and request for resolution plans to prospective resolution applicants	Tuesday, 30th December 2025
15. Last date for submission of resolution plans	Thursday, 29th January 2026
16. Process email id to submit Expression of Interest	bslcirp@gmail.com
17. Details of the Corporate Debtor's registration status as MSME	MSME Registration Number: UDYAM-KR-06-0036692 Type of Enterprise: Medium Date of Registration: 5th April, 2025 Validity / Udyam Registration Status: Active

Sd/-

Ritesh R. Mahajan (Interim Resolution Professional)
 For **BHALKESHWAR SUGARS LIMITED** (Under CIRP)
 IP Registration Number: IBBI/IPA-002/IP-NO0048/2017-18/10132
 "Devgrin", B-203, 2nd Floor, Ganeshnaina, Sinhged Road, Pune - 411030 Date: 20.11.2025
 AFA valid up to - 31.12.2025 Place: Pune

NET 4 INDIA LIMITED (In Liquidation)

Liquidator: CA Niraj Kumar

Registered Office: Plot No. 139-A-1, S/F Mohammadpur, New Delhi- 110061
CIN: L72200DL1985PLC022649

E-AUCTION SALE NOTICE

Sale/Assignment of Not Readily Realizable Assets (NRRA) under Insolvency and Bankruptcy Code , 2016

Notice is hereby given to the public in general that the NRRA Assets of Net 4 India Limited (under liquidation), corporate debtor, forming part of the liquidation estate are proposed to be sold by the undersigned through e-auction in compliance with regulation 32 read with regulation 37A and 33(1) of the Insolvency & Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016. The interested person may refer to the detailed Sale Process Memorandum at <https://ibbi.baanknet.com>

RELEVANT PARTICULARS	
Corporate Debtor:	NET 4 INDIA LIMITED
Liquidation Commencement Date:	20.09.2024
Assets on Sale:	Sale of non-readily realizable assets (NRRA) of the corporate debtor on 'as is where is basis', 'as is what is basis', 'whatever there is basis', 'no recourse basis', including the right of litigation, if any, as are fully set out in the Sales Process Memorandum.
Reserve Price:	Rs. 10,00,00,000 (Rs. Ten Crore)
Refundable / Adjustable Earnest Money Deposit:	Rs. 1,00,00,000 (Rs. One Crore only)
Mode of Sale:	Online by way of e-auction through https://ibbi.baanknet.com
Discussion Meeting:	25.11.2025 to 04.12.2025
Last Date for submission of Affidavit under Section 29A and bid documents:	10.12.2025
Submission of EMD:	17.12.2025
E-Auction Date:	19.12.2025 (from 14:00 to 16:00 hours)
Announcement of Successful Bidder:	22.12.2025

Person interested in bidding can conduct due diligence of their own, the liquidator will not facilitate such inspection and due diligence process.

Important Notes:

- E Auction will be held for Sale of Assignments of NRRA Assets of the corporate debtor on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS, WHATEVER THERE IS BASIS, NO RECOURSE BASIS", without any representation, warranty or indemnity and will be conducted online on <https://ibbi.baanknet.com>.
- Interested applicants may refer to E-Auction Process Information Document for detailed terms and conditions of online E-Auction, Bid form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders, EMD requirement etc., are available at <https://ibbi.baanknet.com>
- Prospective bidders shall submit the requisite documents, including an undertaking of eligibility under Section 29A of the Insolvency and Bankruptcy Code through the BAANKNET auction platform <https://ibbi.baanknet.com>.
- Prospective bidders shall deposit the Earnest Money Deposit (EMD) through the BAANKNET auction platform: <https://ibbi.baanknet.com>
- The undertaking referred in clause 3 hereinabove should state that the prospective bidder does not suffer from any ineligibility under section 29A of the Code to the extent applicable. Prospective bidders may note that if found ineligible at any stage, the EMD shall be forfeited as per IBBI Circular No. <https://ibbi.baanknet.com> dated 28th March, 2025.
- Kindly note that EMD payment must be made through the BAANKNET portal by adding funds to the e-Wallet and clicking "Participate" for the respective auction. Name of Eligible Bidders will be identified and conveyed by Liquidator to participate in online e-auction on the portal [www.baanknet.com](https://ibbi.baanknet.com). The interested bidder should create their User ID & Password in the auction portal and deposit their EMD amount in the e-Wallet of the portal. For any query regarding the e-auction portal, reach out to BAANKNET (Bank Asset Auction Network). Email ID support at baanknet@psballiance.com
- The maximum time allowed to the Successful Bidder for making payment of balance Sale Consideration (i.e., accepted Bid Amount plus other applicable taxes/ duties after set-off/ adjustment of EMD received) along with interest due is 90 days from the date of LOI.
- Interested applicants depositing the EMD and requiring assistance in submitting Bid Forms may contact Liquidator at the below mentioned contact number and email ID.
- It is clarified that, this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. Liquidator has right to extend/defer/cancel and/or modify/delete any of the terms and conditions including timelines of E-Auction at his discretion in the interest of Liquidation Process and has right to reject any bid without any prior notice or assigning any reason whatsoever at any stage of the auction.
- Please note that the assignment will be subject to the provisions of I&B Code, the regulations made thereunder and the Process Information Document.

(Niraj Kumar)

Liquidator for Net 4 India Limited

IBBI/IPA-001/IP-P-02368/2021-2022/13586/ AFA Valid up to 30.06.2026)

Address: 205, Ansal Imperial Tower, C-Block Community Centre,

Naraina Vihar, Delhi-110028; Email: ip.net4india@gmail.com

Date : 19.11.2025

Place : New Delhi

Mobile: 98187 27408

FOR
 DAILY
 BUSINESS.



